

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]	नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2015 (चैत्र 28, 1937)
No. 16]	NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18—APRIL 24, 2015 (CHAITRA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली – 110011, दिनांक 2 फरवरी 2015

सं. ए. 38013/5/2014-पीएमई—अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्री जी. तिरुमतिरा मूर्ति दिनांक 31 जनवरी, 2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 25 मार्च 2015

सं. ए. 22012/1/2015-पीएमई—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, आईएएस (छत्तीसगढ़ : 1987) ने दिनांक 25 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न से प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2015

सं. ए-12023(1)/2/2014-प्रशा.III(वि.का.)—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री इंतुरी रामा राव को दिनांक 16 मार्च, 2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक आयकर अपीलीय अधिकरण में लेखा सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

डी. चौधरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय
(अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2014

सं. ए-19011/4/2014.अ.प.स.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के दिनांक 30/10/2012 के आदेश संख्या 5/9/2012—कें.स.। (यू) के अनुसार, राष्ट्रपति, श्री परमजीत सिंह ठाकुर को दिनांक 16 नवंबर, 2012 से अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में अवर सचिव (केंद्रीय सचिवालय सेवा) के तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

परमजीत सिंह ठाकुर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2015

सं. 14013/06/2013-अ.भा.से.III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
श्री तुकाराम कसार	2003	18.01.2014

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2015

सं. 11019/11/2013-अ.भा.से.—III—राष्ट्रपति, यह निदेश देते हैं कि (डब्ल्यूबी : 1988) संवर्ग पर भारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री प्रशांत को अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) (ग) की शर्तों के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाता है।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
(उप प्रोटोकॉल प्रमुख का कार्यालय)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 मार्च 2015

सं. डी III/460/सीएफ-18/2013—भारत के राष्ट्रपति मुंबई में पोलैंड गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री लेसजेक ब्रेंडा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री लेसजेक ब्रेंडा के कौंसली क्षेत्राधिकार में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादरा एवं नागर हवेली, पुदुच्चेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होंगे, जिसका केन्द्र मुंबई होगा।

आरिफ सईद, उप प्रोटोकॉल प्रमुख (एफ)

दिनांक 19 मार्च 2015

सं. डी III/460/सी एफ-03/2011—श्री शालिन नारायण टंडन को मुंबई में मालदीव गणराज्य के मानद कौंसल के तौर पर उनकी कार्य-अवधि को दिनांक 08 जून 2014 से प्रारंभ करते हुए तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाए जाने के लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी प्रदान की जाती है।

श्री शालिन नारायण टंडन के कौंसली क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आरिफ सईद, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय
कोलकाता-700107, दिनांक 24 मार्च 2015

सं. 26(3)/82-स्था. I—श्री शेखर राय, उप निदेशक अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 28.02.2015 को सरकारी सेवा से अवकाश मुक्त हो गए हैं।

आर. सी. शुक्लाबैद्य, उप निदेशक/कार्यालय प्रमुख

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2015

संख्या ए-19011/6/2015-स्थापना—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के दिनांक 12.02.2015 के कार्यालय आदेश सं. ए-12015/03/2014-आईएसएस के तहत रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में तैनाती हो जाने के परिणामस्वरूप श्री दिनेश कुमार (आईएसएस), निदेशक को पे बैंड-4 (रु. 37,400—67,000/-) ग्रेड पे रु. 8,700/- में दिनांक 17.02.2015 (पूर्वाह्न) से इस विभाग की संख्याशक्ति में शामिल किया जाता है।

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2015

सं. 18/3/2013-ए.एस.ओ.—राष्ट्रपति, श्रीमती सीला सील, अधीक्षक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोलकाता को 24.03.2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 15,600—39,100 रु. के वेतनमान तथा 5400/- रु. के ग्रेड पे में उसी संगठन में उप सहायक कोयला नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. अशरफ, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 26 मार्च 2015

सं. ए-32013/07/2014-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, श्री सी.एम. मेनन, सहायक निदेशक (प्रशासन) ग्रेड-II को 15600—39100/- रुपए के वेतन बैंड-3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन में दिनांक 09.03.2015 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (प्रशासन) ग्रेड-I के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2015

सं. ए-12025/14/2013-एस ए—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री संजीव कुमार सरकार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में

15,600—39,100/— रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 5,400/— रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक रसायन), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 05.09.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेन्द्र जुयाल, अवर सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2015

सं. 32012/2/2013-आईएफएस-I (एजीएमयूटी)—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 के लिए अरुणाचल प्रदेश सिगमेंट के राज्य वन सेवा अधिकारियों (एसएफएस) की भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में पदोन्नति के लिए दिनांक 14.10.2014 को हुई चयन समिति की बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें एजीएमयूटी संवर्ग के अरुणाचल प्रदेश सेकमेंट में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए अरुणाचल प्रदेश के एसएफएस श्री तपेक रीबा (अनु.जन.जाति) (जन्म तिथि : 06.06.1967) का नाम शामिल है।

आर.एस. नेगी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2015

सं. ए-12025/137/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. निशांत कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग में जन स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट ग्रेड-II (जूनियर स्केल) में, परीक्षा पर दिनांक 01.10.2014 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2015

सं. ए-32012/2/2013-डीएफव्यूसी—वर्ष 2015-16 के पैल हेतु दिनांक 13 फरवरी, 2015 को संघ लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा यथावत् स्वीकृत सिफारिशों पर, राष्ट्रपति, उप औषध नियंत्रक (भारत), सीडीएससीओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नियमित पद पर कार्यरत डॉ. वी. जी. सोमानी को संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) के नियमित पद पर उसी संगठन में, संशोधित वेतन पीबी-4 (रु. 37,400—67,000/—) + ग्रेड वेतन रु. 8,700/— (समूह-क—राजपत्रित गैर-अनुसूचित) तथा सामान्य स्वीकार्य भत्तों पर नियमित अस्थायी क्षमता में दिनांक 23 फरवरी, 2015 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक पदोन्नत करते हैं।

2. पदोन्नति होने पर, अधिकारी पदोन्नति की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण अथवा सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली 2008 के अनुसार अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निदेशों का विकल्प चुनने के लिए अधिकृत हैं। ऐसे विकल्प का प्रयोग पदोन्नति की तारीख से एक माह के भीतर अवश्य कर लिया जाना चाहिए।

3. तैनाती के आदेश, जहां भी आवश्यक हों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

राकेश एस. नयाल, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली-100114, दिनांक 3 मार्च 2015

सं. ए-12022/02/2014-स्था. II—राष्ट्रपति ने श्री मुरली मनोहर सिंह को वेतन बैंड-2, 9,300—34,800/— + 4,800/— रुपये के ग्रेड वेतन में माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) का प्रथम पीए 10.11.2014 के पूर्वाह्न से माननीय राज्य मंत्री के प्रभार के साथ सह-समाप्य आधार पर या जब तक माननीय मंत्री उन्हें अपने स्टॉफ में रखना चाहें, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2015

सं. ए-32013/1/2015-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.01.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा वर्ष 2013 के लिए सीएसएस ग्रेड-I अर्थात् अवर सचिव की चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, संस्कृति मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय

सचिवालय सेवा के निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों को सीएसएस (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियमित आधार पर दिनांक 23.01.2015 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	सीएसएस नं.
1.	श्री मनीष राजन	7900
2.	श्री अर्णब अइच	7920

2. अनुमोदित सेवा को गिने जाने के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी मानी जाएगी।

एन. आर. मिंज, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 मार्च 2014

सं. ए-53011/1/2014-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.03.2015 के का. झा. सं. 4/30/2014-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में, डॉ. पी. जे. एंटनी लोक सभा सचिवालय में मूलरूप में अपर निदेशक को मंत्रियों के निजी स्टॉफ में समूचे कैरियर में पीएस/ओएसडी के रूप में कार्यकरण के 5 वर्षों की ढील देते हुए व उपशमन अपेक्षा में छूट देते हुए और साथ ही विगत 10 वर्षों के दौरान मंत्रियों के स्टॉफ में किसी भी हैसियत से कार्य करने पर छूट देते हुए दिनांक 20.03.2015 (अपराह्न) से 3 वर्ष 7 महीने तथा 15 दिन (अर्थात् समूचे कैरियर में मंत्रियों के निजी स्टॉफ में कार्य की अधिकतम 10 वर्षों की अवधि) के लिए माननीय मंत्री के साथ सह-कालिक आधार पर अथवा जब तक वे माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के निजी स्टॉफ में वेतन बैंड पीबी-3 (15,600—39,100/— रु.) जमा 8,000/— रु. ग्रेड वेतन सहित निजी सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 मार्च 2015

सं. 2 (10)/2010-पीए (टीए)—राष्ट्रपति महोदय ने निम्न अधिकारी के अगले उच्च ग्रेड पर उनके नाम के समक्ष दिये विवरण के अनुसार दिनांक 13.03.2015 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जा रहा है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद का विवरण	जिस पद पर नियुक्त किया है
श्री के. के. साइमन इआरटीएल (नार्थ)	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 वेतन (9,300—34,800/— रु. + ग्रेड वेतन 5,400/— रु.)	उपनिदेशक (15,600—39,100/— रु. + ग्रेड वेतन 6,600/—)

विमला शर्मा, उप निदेशक

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2015

सं. एल एच-21012/3/2013-एसएल—राष्ट्रपति, श्री पी. येनेशु, सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) को 16 फरवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 रु. 15,600—39,100/— ग्रेड वेतन रु. 6,600/— के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में उप-निदेशक समूह 'क' के पद पर प्रोन्नत करते हैं।

संजय मित्तल, अवर सचिव

नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 अप्रैल 2015

सं. 6/262/94-प्रशा. 1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री ऐ. के. एस. धुस्सा, वैज्ञानिक 'जी' दिनांक 31.03.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi 110 011, the 2nd February 2015

No. A-38013/5/2014-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri G. Thirumanthira Moorthy, Private Secretary (CSSS) in this office, is retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2015.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 25th March 2015

No. A-22012/1/2015-PME—Consequent upon completion of tenure on Central Deputation, Shri B.V.R. Subrahmanyam, IAS (CG:1987) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 25th March, 2015.

R. MYTHILI, Under Secy.

 MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)
New Delhi, the 31st March 2015

No.A-12023(1)/2/2014-Admn.III(LA)—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government is pleased to appoint Shri Inturi Rama Rao, as Accountant Member of the Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the forenoon of 16th March, 2015 and until further orders.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

 MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT)
New Delhi, the 27th March 2015

No. A-19011/8/2010-ISC—In pursuance of DOP&T's Order No. 5/9/2012- CS I (U) dated 30/10/2012, the President is pleased to appoint Shri Paramjit Singh Thakur, as Under Secretary (Central Secretariat Service), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, with effect from 16th November 2012.

P.S.THAKUR, Under Secy.

 MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
New Delhi, the 30th March 2015

No. 14013/06/2013 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against him:

Name	Batch	Due Date of confirmation
Shri Tukaram Kasar	2003	18.01.2014

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 31st March 2015

No.11019/11/2013-AIS-III—The President is pleased to direct that Shri Prashant, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Cadre of (WB:1988) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of rule 7(2)(c) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL)

New Delhi-110011, the 09th March 2015

No. D-III/460/CF-18/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Leszek Brenda as the Consul General of the Republic of Poland in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Leszek Brenda comprises the States of Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Goa, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Union Territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands with the seat in Mumbai.

ARIF SAEED, Dy. Chief of Protocol (F)

The 19th March 2015

No. D-III/460/CF-03/2011—The President of India is pleased to recognize the extension of Mr. Shalin Narain Tandon as Honorary Consul of the Republic of Maldives in Mumbai for a period of three years starting from 08 June, 2014.

The consular jurisdiction of Mr. Shalin Narain Tandon shall remain unchanged.

ARIF SAEED, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(DIRECTORATE GENERAL OF COMMERCIAL INTELLIGENCE AND STATISTICS)

Kolkata-700 107, the 24th March 2015

No. 26(3)/82-Estt.I—Shri Sekhar Roy, Deputy Director, had retired from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28.02.2015.

R. C. SUKLABAIDYA, Dy. Director/Head of Office

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 27th February 2015

No. A-19011/6/2015-Estt.—Consequent upon his posting in the Department of Chemicals & Petrochemicals vide Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI)'s Office Order No. 12015/03/2014-ISS dated 12.02.2015, Shri Dinesh Kumar (ISS), Director is taken on the strength of this Department in the PB-4 (37400—67000) and the Grade Pay of 8700 w.e.f. 17.02.2015(F/N).

T.P.N. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 31st March 2015

No.18/3/2013-ASO.—The President is pleased to appoint Smt. Sila Seal, Superintendent, Coal Controller Organisation, Kolkata as Deputy Assistant Coal Controller in that Organisation in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 24.03.2015 (FN) and until further orders.

S. ASHRAF, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110 011, the 26th March 2015

No. A-32013/07/2014-NTH—The President is pleased to appoint Shri C. M. Menon, Assistant Director (Administration) Grade-II to the post of Assistant Director (Administration) Grade-I in the National Test House, Kolkata in

the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5,400/- on ad-hoc basis with effect from 09.03.2015 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 7th April 2015

No. A-12025/14/2013-SA.—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sanjib Kumar Sardar to the post of Junior Scientific Officer (Physical Chemistry), a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600-39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5,400/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 05.9.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of one year.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 5th February 2015

No.32012/2/2013-IFS-I (AGMUT)—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service officers (SFS) of Arunachal Pradesh segment into Indian Forest Service (IFS) for the year 2013 prepared in the Selection Committee meeting held on 14.10.2014 containing the name of Shri Tapek Riba (ST) (DOB:06.06.1967) of the SFS of Arunachal Pradesh towards filling up of promotion quota vacancies available in Arunachal Pradesh segment of AGMUT cadre.

R.S NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 27th March 2015

No. A.12025/137/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nishant Kumar to the post of Public Health specialist Grade-II (Junior Scale) in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.10.2014 and until further orders.

MURARI LAL SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th February 2015

No. A.32012/2/2013-DFQC—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (DPC) in its meeting held in the Union Public Service Commission on the 13th February, 2015 for the panel year 2015-16, duly approved by the Chairman and Members, the President is pleased to promote Dr. V. G. Somani, holding the regular post of Deputy Drugs Controller (India), CDSCO, Directorate General of Health Services to the post of Joint Drugs Controller (India) in the same organization, in the revised pay structure PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) + Grade Pay Rs. 8,700/- (Group 'A'-Gazetted Non-Ministerial) plus usual admissible allowances in a regular temporary capacity with effect from the forenoon of the 23rd February, 2015 and until further orders.

2. On promotion, the officer is entitled to option of fixation of pay in the revised pay structure from the date of promotion or the date of next annual increment in accordance with the CCS (Revised Pay) Rules, 2008 and instructions issued by the Government in this regard. Such option must be exercised within one month from the date of promotion.

3. The orders of posting, wherever necessary, will be issued by the Directorate General of Health Services.

RAKESH S NAYAL, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi-100114, the 3rd March 2015

No. A-12022/03/2014-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri Murli Manohar Singh as 1st PA to the Hon'ble Minister of State for Rural Development (Shri Sudarshan Bhagat) in PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- w.e.f. 10.11.2014 (F/N) purely on co-terminus basis with the charge of the Hon'ble Minister or till such time the Hon'ble Minister desires to retain him in his personal staff, whichever is earlier.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 31st March 2015

No. A -32013/1/2015—Estt.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Grade –I of CSS, i.e. Under Secretary for the year 2013 vide Department of Personnel & Training's O.M. dated 23.1.2015, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries of Central Secretariat Service, working in Ministry of Culture, to the Grade-I of CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. the forenoon of 23.1.2015:—

Sl. No.	Name	CSL No.
1.	Shri Maneesh Rajan	7900
2.	Shri Arnab Aich	7920

2. The appointment of above officers would be deemed to have effective with effect from 1.7.2013 for the purpose of counting of approved service.

N. R. MINZ, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 25th March 2015

No. A-53011/1/2014-Estt.— In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/30/2014-EO (MM-1) dated 13.03.2015, the President is pleased to appoint Dr. P.J. Antony, a substantive Additional Director in Lok Sabha Secretariat, as Private Secretary (Director level) in the personal staff of Hon'ble Minister for Minority Affairs in Pay Band PB-3 (Rs. 15600-39100) plus Grade Pay of Rs. 8000/-, in relaxation of 5 years of working as PS/OSD in the entire career in the Ministers' personal staff and in relaxation of cooling off requirement as well as relaxation of having worked in the Ministers' staff in any capacity during the last 10 years, w.e.f. 20.03.2015 (A/N) for a period of 3 years 7 months and 15 days (i.e. the maximum period of 10 years of working in personal staff of Ministers in the entire career) on co-terminus basis with the Hon'ble Minister or till he ceases to function as PS to the Hon'ble Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

MAITREYEE ROY, Deputy Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)
STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 26th March 2015

No. 2(10)/2010-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following officer to the next higher grade as per the details given w.e.f. 13.03.2015 (FN) :—

Name	Present post held	Promoted to the Post
Sh. K. K. Simon ERTL (Norht)	Administrative Officer Grade I (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	Deputy Director (Rs. 15,600—39,100/- +Grade Pay Rs. 6,600/-)

VIMLA SHARMA, Deputy Director

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 31st March 2015

No. LH-21012/3/2013-SL—The President is pleased to promote Shri P.Yenesu, Assistant Executive Engineer(Civil) to the Group 'A' post of Deputy Director in the Pay Band-3 Rs.15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the forenoon of 16th February 2015.

SANJAY MITAL, Under Secy.

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 6th April 2015

No. 6/262/94-Admn.I : On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Dhussa, Scientist 'G' in this Ministry retired from Government service with effect from 31st March, 2015 (AN).

SURESH KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC 2]—75 Copies.